



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ संख्या: भा.वि.प्रा./तिरुच्चि/आर.टी.ऐ
Ref. No: AAI/TR/RTI/4229-31

दिनांक:
Dated: 30.06.2026

सेवा में / To: **MR. KALIDASAN, RAMANATHAPURAM (TN)**
ईमेल द्वारा / By EMAIL : bharathtravelsramnad@gmail.com

& ऑनलाइन आरटी आई पोर्टल में अपलोड
/ Upload in Online RTI portal

महोदय / Sir,

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना – तत्संबंधी।

Sub: Information under RTI ACT 2005 – Reg.

संदर्भ आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या के साथ किया जाता है /

Reference is made to your Online RTI application bearing Registration No. AAICH/R/E/26/00067 dated 13.06.2026, on the subject.

इस संबंध में, इस कार्यालय से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है / In this connection, the reply for your RTI queries in respect of Trichy Airport, is furnished below:

Q. No.	RTI Query	RTI Reply in respect of Trichy Airport
1	Whether Airports Authority of India, Tiruchirappalli International Airport has received any instructions, guidelines, circulars, policy document or directions from the Ministry of Civil Aviation or Airports Authority of India Headquarters regarding establishment of Udaan Yatri café	Attached.
2	Provide copies of all circulars, guidelines, policy documents, office orders and correspondence related to implementation of Udaan Yatri Café at Tiruchirappalli International Airport.	Attached.
3	Whether Udaan Yatri Café has been implemented at Tiruchirappalli International Airport If yes provide: Date of commencement of operations. Exact location of the café within the airport premises. Copy of approval/order for establishment of the café.	Not implemented at Trichy Airport.
4	If Udaan Yatri Café has not yet been implemented, Provide: Present status of the proposal. Reasons for non-implementation. Target date fixed for implementation, if any.	The information sought for is not defined as information under Section 2(f) of RTI, Act 2005.
5	Provide copies of feasibility studies, surveys, inspections, committee recommendations, file noting and approvals relating to implementation of Udaan Yatri Café at Tiruchirappalli International Airport.	Records on the information sought for is not available.
6	Furnish details of the agency / operator selected for operating the Udaan Yatri Café, including: Name and address of the operator. Mode of selection (tender / nomination / other). Copy of agreement/ contract/work order executed with the operator.	Information sought for is Not applicable, in terms of reply provided above for query No-3.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

7	Provide copies of tender documents, Notice Inviting Tender (NIT), bid evaluation reports and award details, if any, pertaining to Udaan Yatri Café.	Records on the information sought for is not available.
8	Furnish details of the space allotted for the cafe, including: Area in square metres. Location details. Licence fee/rent fixed. Concessions or rebates, if any, provided by AAI.	Information sought for is Not applicable, in terms of reply provided above for query No-3.
9	Provide the approved menu and pricing structure prescribed for Udaan Yatri Café at Tiruchirappalli International Airport.	
10	Furnish details of expenditure incurred by Airports Authority of India for establishment of the café, including civil works, electrical works, furnishing and other infrastructure.	
11	Provide details of revenue earned from the café since commencement of operations, month wise, if operational.	
12	Furnish copies of passenger feedback, inspection reports, audit reports and performance reviews conducted in respect of the Udaan Yatri café.	
13	Provide details of any future expansion plans, additional outlets or proposed modifications relating to Udaan Yatri Café at Tiruchirappalli International Airport.	
14	Provide certified copies of file noting and approvals of the competent authority relating to implementation / non implementation of Udaan Yatri Café at Tiruchirappalli International Airport.	Records on the information sought for is not available.

In case, you want to go for an appeal in connection with the information provided, you may appeal to the **REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR / First Appellate Authority, SOUTHERN REGION, AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, Chennai – 600 027** within thirty days from the date of receipt of this letter.

(G GOPALAKRISHNAN)

AIRPORT DIRECTOR (Offg.) & PUBLIC INFORMATION OFFICER



प्रतिलिपि: पी.आई.ओ- द.क्ष, भा.वि.प्रा., चेन्नई - 600 027 - कृपया जानकारी के लिए अग्रेषित किया गया

Copy forwarded for kind information to: **PIO-SR, A.A.I, RHQ-SR, Chennai – 600 027.**

आंतरिक : एस.एम.(आईटी) – भा.वि.प्रा वेब पोर्टल* में अपलोड करने के लिए।

Internal : **SM(IT)** - to upload in AAI Web portal* for compliance under Section 4 of RTI Act.

*<https://www.aai.aero/en/rti/appeals-and-responses/Southern%20Region>



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सीएल/11/2024-वाणिज्यिक/ 162-180

02-09-2025

वाणिज्यिक अनुदेश . स 04/2025
Commercial Instruction No. 04/2025

विषय:- भा.वि.प्रा. हवाई अड्डों में Udan Yatri Café के लिए नीति के संबंध में।

Subject: - Policy for Udan Yatri Café in AAI airports - Reg.

यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए भा.वि.प्रा. हवाई अड्डों पर Udan Yatri Café के लिए नीति तैयार की गई है।

In order to enhance passenger facilitation, a policy for Udan Yatri Café at AAI Airports has been formulated.

2. यह मामला सी.ए.बी. की 325वीं बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया था। सीएबी की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के आधार पर, Udan Yatri Café के लिए नीति तैयार की गई है और उसे Appendix-I के रूप में संलग्न किया गया है।

The matter was presented before the CAB in its 325th Meeting for deliberation. Based on the CAB's recommendations and subsequent approval from the Competent Authority, the Policy for Udan Yatri Café is formulated and annexed as Appendix-I.

3. Udan Yatri Café की व्यवस्था केवल सीएचक्यू के निर्देश के बाद ही हवाई अड्डे पर की जाएगी।

The Udan Yatri Café is to be provisioned at Airport only after direction from CHQ.

This commercial instruction is available at AAI Website under following path:

<https://www.aai.aero/en> => employee login => circulars & orders => check circulars only =>
Department (Commercial) => search

राधिका

राधिका आर.

कार्यपालक निदेशक(वाणिज्य)

सम्प्रेषण / Distribution:

1. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तरी/पूर्वी/उत्तर पूर्वी/दक्षिणी/पश्चिमी क्षेत्र)
Regional Executive Directors (NR/ER/NER/SR/WR)
2. विमानपत्तन निदेशक, कोलकाता/चेन्नई
Airport Directors, Kolkata/Chennai.
3. सभी विमानपत्तन निदेशक
All Airport Directors / Airport In-Charges
4. क्षेत्रीय वाणिज्यिक प्रभारी (उत्तरी/पूर्वी/उत्तर पूर्वी/दक्षिणी/पश्चिमी क्षेत्र)
Regional Commercial In-Charges (NR/ER/NER/SR/WR)

प्रति /Copy to:

1. अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. के ईए
EA to Chairman, AAI, CHQ.
2. सदस्य (मानव संसाधन/ वित्त/योजना/ संचालन/ एएनएस), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय
Member (HR/Finance/Planning/Operations/ANS), AAI, CHQ
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, निगमित मुख्यालय
Chief Vigilance Officer, CHQ
4. महाप्रबंधक (आईटी), निगमित मुख्यालय - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
GM (IT), CHQ for uploading on website please.

PROVISIONING OF UDAN YATRI CAFÉ

Appendix-I

(a) Space – 05 to 10 sqm

(b) Location – Departure Concourse (Pre-SHA) AND/OR kerb side of Terminal Building.

(c) Menu –

S.No.	Items	Price (Rs.) (Inclusive of all Taxes)
1.	Water (Packed Mineral Water of Minimum 500 ml)	10/-
2.	Tea	10/-
3.	Coffee	20/-
4.	Sweet of the day	20/-
5.	Samosa/Kachori/Pattie/Sandwich	20/-

Note: No other items are permitted to be sold in the Café. If any other items are found to be sold or any items are sold above the approved price list, then the Commercial -In-Charge of the Airport/Duty Terminal Manager at the Airport shall have the power to get those items removed and to charge a fine of Rs. 500/- per instance.

(d) The Outlet can be formally termed as UYC (Udan Yatri Café) and the name can be patented through CA&CS Dte.

(e) The modality for establishing such an outlet shall be either through Master Concessionaires for F&B at Airports, within their assigned space OR through call of tender as per below:

i. **Periodicity** – 03 Years.

ii. **Fixation of MRLF** –

Minimum Reserved License Fee (MRLF) can be fixed as 50% of the applicable space rent i.e. (Area in Sqm × applicable space rent per Sqm (AC/Non-AC as applicable) × 50%).

The price of menu is fixed for entire period of contract.

iii. Rest of the parameters shall be as per Commercial Manual (to be read with subsequent amendments).

(f) The policy may be implemented across all AAI operated Airports.

21/12/2021